UNIPARTS INDIA LTD.

August 23, 2024

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai – 400 001

Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 543689 Symbol: UNIPARTS

Subject: 30th Annual General Meeting of Uniparts India Limited on Friday, September 20, 2024

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of Uniparts India Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 20, 2024 at 04.30 P.M. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'). The Notice of the 30th AGM of the Company and the Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent in due course only through electronic mode to all the Members whose email IDs are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent/ Depository Participant. These documents would also be available on the Company's website at www.unipartsgroup.com.

In accordance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has fixed Friday, September 13, 2024, as the Cut-Off Date to determine the entitlement of the members to cast their votes electronically for the businesses to be transacted at the ensuing AGM of the Company. Detailed procedure for remote e-voting and voting during the AGM will be provided in the AGM Notice.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today i.e. August 23, 2024 in Business Standard (English and Hindi), intimating the Members of the Company regarding the 30th AGM. The copies of newspaper advertisements are also being disseminated on the Company's website at www.unipartsgroup.com.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours faithfully, For Uniparts India Limited

Jatin Mahajan Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above



Uniparts India Limited

Registered Office: Gripwel House, Block-5, Sector C 6 & 7 Vasant Kuni, New Delhi 110070 Corporate Office: 1st Floor, B 208, A1 & A2, Phase-II, Noida-201305, (U.P.) Tel: +91 120 4581400

UNIPARTS CIN L74899DL1994PLC061753

 ${\sf Email:} \underline{\sf compliance.officer@unipartsgroup.com}; Website: \underline{\sf www.unipartsgroup.com}$

INFORMATION REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting of the members of Uniparts India Limited ("the Company") will be held on Friday, the 20th day of September, 2024 at 04:30 P.M. (IST) through Video Conferencing "VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), to transact the ousiness set out in the Notice calling the AGM. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorun under Section 103 of the Companies Act. 2013.

Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2023-24 including the financial statements for the financial yea ended March 31, 2024 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are egistered with the Depository Participants or the Company or Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intim India Private Limited ("RTA"), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.unipartsgroup.com, websites of the Stock Exchanges, that is BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's RTA at https://instavote.linkintime.co.in.

The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting of casting vote through e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses is not registered with the Company/ RTA/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. The same login credent nay also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Manner of registering / updating email addresses:

(a) Members holding shares in physical form are requested to register/update their email address by writing to the Company/RTA, along with folio number, name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN card (self-attested scanned copy) and AADHAR (self-attested scanned copy). The Members, holding shares in physical mode may send the aforesaid documents to update/register the emai address on compliance.officer@unipartsgroup.com or at the following address of RTA:

M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: Uniparts India Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email address with their Depository Participants, are requested to register / update their email address with the Depositor Participant(s) with whom they maintain their demat accounts

n terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company has fixed Friday, September 13, 2024 as the Cut-off date to determine the eligibility of the members to cast their vote by electronic means and e-Voting during the AGM. Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of AGM and holding share as on the **Cut-off date** may obtain the Login credentials by following the instructions as mentioned in the Notice of AGM or sending a request at shamwant.kushwah@linkintime.co.in.

For Uniparts India Limited

Jatin Mahajar

Date: August 22, 2024 Place: Noida (U. P.)

Head Legal, Company Secretary and Compliance Officer

K V DEVELOPERS PVT. LTD. KVD

Notice for Allottees of KVD Windpark (UPRERAPRJ3122) Plot No.GH09-B, Tech Zone IV, Greater Noida West, Uttar Pradesh

This is to inform that as per the terms of resoultion plan as approved by the Hon'ble NCLT ("Resolution Plan"), allotmer of units of Allottees who failed to clear their dues within 90 days from date of demand were to be cancelled. However on the request of homebuvers, in good faith, the Company launched a Default Revival Scheme and continued to receive and accept payments. However, despite sending various reminders, following allottees have still failed to clear thei

S No.	Unit No.	Allottees Name	S No.	Unit No.	Allottees Name	
1	T3/171	Aarem Construction	33	T7/143	Tushar Paryani	
2	T1/144	Sangeeta Sinha and Alok Sinha	34	T1/34	Pushplata Tiwari and Dhanesh Kumar Tiwari	
3	T7/94	Lokendra Kumar Tripathi	35	T2/152	Manjusha Kumari and Ved Prakash	
4	T6/23	Shailendra Tiwari and Vandana Tiwari	36	T7/34	Swati Tyagi	
5	T7/186	Sanjiv Dutta Dwari and Sharda Devi	37	T6/61	Mahesh Kohli	
6	T7/28	Abhimanyu Rana and Jyoti Thakur	38	T7/191	Subrat Kumar Pradhan and Momi Roy	
7	T6/182	Nishat and Md Irfan	39	T1/184	Samsher Singh Rawat and Sunita Rawat	
8	T3/174	Satnam Singh and Mandeep Kaur	40	T7/103	Naveen Nayyar	
9	T3/123	Zubaida Khatoon and Idreesh Khan	41	T7/45	Naveen Nayyar	
10	T6/176	Deepak Sharma and Sheetal Sharma	42	T6/141	Chandra Prakash Vela	
11	T3/82	Mohammad Moin Raza and Mohd Ahmad Khan	43	T7/148	Shivankar and Ritu Sinha	
12	T3/133	Aditi Singhal	44	T6/192	Kapil Mehndiratta	
13	T1/124	Ajay Raj Singh Chauhan and Parul Singh	45	T7/147	Jyoti Bali	
14	T3/92	Mohammad Hamid Raza Khan and Mohd Asif Khan	46	T6/174	Kapil Mehndiratta	
15	T3/204	Kamini Sehgal	47	T3/153	Jarnail Singh and Gurprit Kaur	
16	T2/92	Puja Dubey and Satish Kumar Dubey	48	T6/93	Rapid Credit and Holding Pvt Ltd	
17	T1/102	Dr. Lalita Agarwal and Rajesh Kumar Agarwal	49	T7/156	Rajeev Ranjan Kumar	
18	T1/52	Dr. Lalita Agarwal	50	T6/123	Satish Kumar	
19	T7/44	Mukesh Kumar Bhandula	51	T1/151	Manoj Singh and Poonam Singh	
20	T3/203	Varun Akash and Bimlesh Saxena	52	T6/242	Shiv Prasad Chaubey and Sachin Chaubey	
21	T7/73	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	53	T1/174	Binod Kumar Agarwal	
22	T7/74	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	54	T6/181	Suryakant Pandey	
23	T1/82	Rajesh Kumar Agarwal	55	T6/165	Anubhav Singhal and Rakesh Singhal	
24	T7/104	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	56	T1/152	Poonam Singh	
25	T7/37	Rizwana Akhtar	57	T1/172	Poonam Singh and Manoj Singh	
26	T7/127	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	58	T3/63	Binod Kumar Agarwal	
27	T6/57	Sarika and Ramesh Jerath	59	T7/176	Preeti Sharma	
28	T3/51	Rajesh Kumar Agarwal	60	T6/138	Prashant Pitti	
29	T3/52	Lalita Agarwal	61	T1/154	Sneh Bhardwaj	
30	T6/87	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	62	T6/153	R Jogindra Pradhan and R Bhanumati	
31	T6/88	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	63	T3/122	Poonam Singh	
32	T7/226	Rishikesh Prasad and Poonam Kumari				
Failure to clear dues in a timely manner by allottees, has created a grave impediment for the Company to implement the						

ailure to clear dues in a timely manner by allottees, has created a grave imped resolution plan in a timely manner. Hence, in order to protect the interests of other allottees of the project, the Company is forced to cancel the above allotted units without any further notice in case the above allottees do not settle their default by 31-Aug-24 as per the terms of Default Revival Scheme

K V Developers Private Limited



GOVERNMENT OF TAMIL NADU FINANCE DEPARTMENT, CHENNAI-9

Auction of 5 & 30 years Tamil Nadu Government Stock (Securities)

- 1. Government of Tamil Nadu has offered to sell by auction the dated securities for an amount of Rs.1000 crore with Five year tenure and Rs.3000 crore with Thirty year tenure for an aggregate amount of Rs. 4000 crore. Securities will be issued for a minimum nominal amount of Rs.10,000/- and multiples of Rs.10,000/- thereafter. Auction which will be yield based under multiple price format will be conducted by $Reserve\ Bank\ of\ India\ at\ Mumbai\ Office\ (Fort)\ on\ \textbf{August\ 27,2024}.$
- 2. The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of its notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure II). Under the scheme, an investor can submit a single bid only through a bank or a Primary Dealer
- 3. Interested persons may submit bids in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on August 27, 2024.
- a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.
- b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.
- 4. The vield percent per annum expected by the bidder should be expressed up to two decimal points. An investor can submit more than one competitive bid at different rates in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System. However, the amount of hids submitted by a person should not exceed the notified amount.
- 5. The result of auction will be displayed by Reserve Bank of India on its website on August 27, 2024. Successful bidders should deposit the price amount of Stock covered by their bids by means of a Bankers' Cheque or Demand Draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) or Chennai on August 28, 2024 before the close of banking
- 6. The Government Stock will bear interest at the rate determined by Reserve Bank of India at the auction and interest will be paid half yearly on February 28 and August 28. The Stock will be governed by the provisions of the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007.
- 7. The stocks will qualify for ready forward facility.
- 8. For other details please see the notifications of Government of Tami Nadu Specific Notification No's 735(L)/W&M-II/2024 & 736(L)/W&M-II/2024 dated August 22, 2024.

T.Udhayachandran Principal Secretary to Government, Finance Department, Chennai-9.

DIPR/ 869 /DISPLAY/2024

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) under the Securitisation and Reconstruction of Finance Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interes (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 30.11.2022 calling upon the Borrower(s) AMBARISH PANDEY AND ANUBHA PANDEY to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.7,25,849.32 (Rupees Seven Lakhs Twenty Five Thousand Eight Hundred Forty Nine and Paise Thirty Two Only) against Loan Account No. HHLNOD00300258 as on 16.11.2022 and interes thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 on 21.08.2024

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) for an amount of Rs.7,25,849.32 (Rupees Seven Lakhs Twenty Five Thousand Eight Hundred Forty Nine and Paise Thirty Two Only) as on 16.11.2022 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 o the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. A 1706 HAVING SUPER AREA 870 SQUARE FEET ON 17TH FLOOR TOWER-A IN THE PROJECT KNOWN AS SKYTECH COLOURS AVENUE CONSTRUCTED UPON PLOT NO. GH-01/C SITUATED IN SECTOR 10 GREATER NOIDA - 201307, UTTAR PRADESH.

Date: 21.08.2024 Authorised Officer SAMMAAN CAPITAL LIMITED Place: GREATER NOIDA (FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

VIDHI SPECIALTY FOOD INGREDIENTS LIMITED

[CIN: L24110MH1994PLC076156]

Registered Office: E/27, Commerce Center 78, Tardeo Road, Mumbai-400034 VIDHI Phone No.: 022-6140 6666; Fax No.: 022- 23521980 Website: https://vidhifoodcolors.com/; Email id: mitesh.manek@vidhifoodcolors.com

NOTICE TO THE MEMBERS

This is hereby informed that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Vidhi Specialty** Food Ingredients Limited is scheduled to be held on Tuesday. September 24, 2024 at 03:30 p.m. (IST rough Video Conferencing / Other Audio-Visual Means to transact the business to be set out in the Notice of AGM, only through e-voting facility.

Notice of AGM along with Annual Report will be sent only through electronic mode to the Members whose e mail id is registered with the Company/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent ('R&TA') in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with 10/2022 dated December 28, 2022 , General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 collectively referred to as "**MCA Circulars**") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide s Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 7, 2023 read with Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020, circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 in relation to 'Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 - Covid-19 pandemic' (collectively referred to as "SEBI Circulars").

The same shall also be available on the website of the Company at https://vidhifoodcolors.com/investor-relation/annual-reports/and also on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, respectively. The AGM Notice shall also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are given below and shall also be provided in the Notice of the AGM. Members attending through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. nstruction for Remote e-voting prior to the AGM and Remote e-voting during the AGM

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Managemen and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standards on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing facility to all its Members to cast their vote on all the resolutions to be set forth in the Notice of the AGM by electronic m voting) by using electronic voting system provided by the NSDL either by (a) remote e-voting prior to the AGM or (b) e-voting during the AGM.
- Only a person, whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners as on Tuesday September 17, 2024 (the "cut-off date") are provided with the facility to cast their vote electronically, by availing the facility of remote e-voting prior to the AGM or e-voting during the AGM as per the procedure stated in the notes to the Notice of the AGM on all the resolutions to be set forth in the Notice
- The remote e-voting period will commence at 09:00 a.m. (IST) on Saturday, September 21, 2024 and will end at 05:00 p.m. (IST) on Monday, September 23, 2024. During this period, Members may cast their vote electronically. Remote e-voting shall be disabled by NSDL after 05:00 p.m. on Monday. September 23. 2024 and Members will not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote or resolutions is cast by the Members, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The e voting module during the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OCVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company afte dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing login id and password, and cast his/her vote.
- Members are requested to read all the notes set out in the Notice of the AGM and instructions fo participating at the AGM and manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM. This notice is issued for the benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable MCA and SEBI circulars.

As per the MCA Circulars and SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to Members. Members who have not registered their email address are requested to follow the process mentioned below for registering their e-Mail addresses to receive the Notice of AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-voting.

Company has made special arrangement with the RTA for registration of e-mail addresses in terms of the MCA Circulars for Members who wish to receive the Annual Report along with the AGM Notice electronically and to cast the vote electronically. In order to register the email id for receiving the Notice of 31st AGM and nnual Report through email please Email at <u>rnt.helpdesk@linkintime.co.in</u> and provide the requisite information and attach requisite documents. The system will then confirm the e-mail address for the limited purpose of servicing the Notice of this AGM along with the Annual Report for the year 2023-24.

t is clarified that, to receive timely communications from the Company, please permanently register/update your e-mail address and for registration please contact R&TA/respective Depository Participant, as the case n case of any queries/grievances pertaining to remote e-voting (prior to and/or during the AGM) you may

refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders vailable in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Prajakta Pawle at evoting@nsdl.com. Manner of registering mandate of receiving dividend: In respect of the Members holding shares in electronic form, the bank details obtained from the respective depositories will be used for the purpose of distribution of dividend through various approved/

permissible electronic mode of payment. The Company/ R&TA cannot act on any direct request from the Members holding shares in dematerialized form for update/ change of such bank details. Such changes are to be intimated by the Members to their depository participants. In respect of the Members holding shares in the physical form, the bank details obtained from the R&TA will be used for the purpose of distribution of dividend through various approved/ permissible electronic

mode of payment. The facility for registration of bank details for the Shareholders holding shares in

physical form are also available on Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in_by providing details sought at the earliest so that it could receive by the Company before making the payment of dividend. accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ('Act') as amended by and read with the provisions of the Finance Act. 2020, applicable with effect from April 01, 2020, dividend declared and paid by the Company is taxable in the hands of its shareholders, and accordingly the Company is required to educt tax at source (TDS) at the applicable rates. The shareholders have an option to apply to the Company for non-deduction of TDS or deduction of TDS at a lower rate by providing the necessary documents. Please click on link at https://liiplweb.linkintime.co.in/client-downloads.html and use "General Tab" for downloading

Form 15G/15H/10F for current financial year. Please click on <u>link at https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html</u> fo submission of Form 15G/15H/10F for current financial year for non deduction of TDS on Dividend declared by the Company.

ny query related to dividend or any request regarding change/ update in the address or bank details shoul be directed to R&TA at Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in. Contact No.: 8108116767. Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their bank account details. In case the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by electronic mode due to non-availability of the details of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant

cheque to such shareholder by post.

Place: Mumbai

Date: August 22, 2024

For Vidhi Specialty Food Ingredients Limited

Vishakha Pandya Company Secretary Membership No. A59436

JM FINANCIAL

JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Corporate Identification No.: U67190MH2007PLC174287

Regd. Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025

Authorized Officer: Prashant Monde, Email: prashant.monde@jmfl.com, Phone: +91 22 6224 1676. Website: www.imfinancialarc.com

POSSESSION NOTICE

[UNDER RULE 8(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002] (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of JM Financial Asset Reconstruction Company Limited, acting in its capacit as trustee of Retail June 2022 – Trust (hereinafter referred to as "JMFARC") having acquired the financial assets pertaining to AMIT SINGH (hereinafter referred to as "Borrower"), together with the underlying security interest created therefore along with all rights, title and interest thereon from Poonawalla Fincorp Limited (Formerly known as Magma Fincorp Limited) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred as "SARFAESI Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the SARFAESI Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter powers conterred under section 13 (12) of the SAKIFAESI ACT read with Kille 3 of the Security interest (Enforcement) Killes, 2002 (nereinater referred to as "Said Rules"), vide an assignment agreement dated 28.02.2023 and issued a dated 09.04.2024 (alling upon the AMIT SINGH (BORROWER) & [LEGAL REPRESENTATIVE/HEIR OF LATE MEGH RAJ SINGH (CO-BORROWER))] SHAKUNTLA DEVI (CO-BORROWER) & (LEGAL REPRESENTATIVE/HEIR OF LATE MEGH RAJ SINGH (CO-BORROWER))], SHAKUNTLA DEVI (CO-BORROWER), BABITA SINGH ("CO-BORROWER)), To describe the control of the said notice being Rs. 36,10,427/-(Rupees Thirty Six Lacs Ten Thousand Four Hundred Twenty Seven only) as on 03.04.2024 together with interest at contractual rate and nses, costs, charges etc. due thereon till the date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Co-Borrowers/Legal Heirs having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-Bo Heirs and the public in general that the undersigned, being the Authorised Officer of JMFARC has taken physical possession of the property described in the Schedule herein below (hereinafter referred to as "Said Property") in exercise of powers conferred on him/her under section 14 of the said Act read with Rule 9 of the said rule on this 21st August, 2024.

The Borrower/Co-Borrowers/Legal Heirs in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the Said Property and

any dealings with the Said Property will be subject to the charge of JMFARC for an amount of Rs. 36,10,427/- (Rupees Thirty Six Lacs Ten Thousand Four Hundred Twenty Seven only) as on 03.04.2024 with interest thereon plus, costs and other charges thereon from 04.04.2024

The Borrower/Co-Borrowers/Legal Heirs attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of e available, to redeem the secured assets, i.e., the Said Property

HL/0031/H/15/000224 HL/0031/H/15/000286

कार्य का नाम

Place : Delhi Date : 23.08.2024

प्रखण्ड

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF MORTGAGED PROPERTY, AREA MEASURING 75 SQ.YARDS IE 62.71 SQ.MTRS BEARING PROPERTY NO. K-413, (OLD NO. K-21/87), OUT OF KHASRA NO. 691, CONSISTING OF THREE ROOM SET ON GROUND FLOOR, THREE ROOM SET ON FIRST FLOOR AND THREE ROOM SET ON SECOND FLOOR, WITH THE RIGHTS TO USE AND CONSTRUCT UP TO LAST STOREY, SITUATED AT VILLAGE GHONDA, GUJRAN KHADAR, IN THE ABADI OF GALI NO. 7, GAUTAM VIHAR, ILLAQA SHAHDARA, DELHI, PIN – 110053. BOUNDARIES OF LAND/FLAT/PLOT IN RESPECT OF SAID PROPERTY AS UNDER: EAST: PROPERTY OF OTHERS, WEST: GALI, NORTH: PROPERTY OF OTHERS, SOUTH: PROPERTY OF OTHERS

SCHEDULE - Description of the Said Property

Authorised Officer

JM Financial Asset Reconstruction Company Limited
acting in its capacity as trustee of Retail June 2022 – Trust

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

प्राक्कलित राशि अग्रधन की राशि

ई— निविदा सूचना संख्या – <u>RDD/SD/CHAIBASA/06/2024-25</u> (DMFT Fund) 1.कार्य की विस्तृत विवरणीः

सं०	प्रखण्ड	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	का मूल्य	की अव
1	सदर चाईबासा	बड़ा लागिया पंचायत के ग्राम बड़ा लागिया आरांगाबासा से आर0ई0ओ0 सड़क तक पी0सी0सी पथ निर्माण।	9984700.00	200000.00	10000.00	4 माह
2	सदर चाईबासा	गाईसुटी पंचायत के ग्राम चिमिहातु स्कूल चौक से बोंगाबुरू तक पी०सी०पी० पथ एवं पुलिया निर्माण।	5450000.00	109000.00	10000.00	4 मा
3	सदर चाईबासा	बड़ा लिग्या पंचायत में बड़ा लिग्या लैंपस से कबरागुटू लागेश्वर सुण्डीघर तक पी०सी0सी0 पथ निर्माण।	24910500.00	499000.00	10000.00	6 मा
4	सदर चाईबासा	बड़ा लगिया पंचायत में कुकरूबारू से रोरो चौक तक पी०सी०सी० तथा आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।	13614600.00	273000.00	10000.00	6 मा
5	सदर चाईबासा	बड़ा लगिया पंचायत के ग्राम हेस्सापी से रायुबेड़ा तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	18823100.00	377000.00	10000.00	6 मा
6	सदर चाईबासा	गाईसूटी पंचायत के ग्राम के ग्राम सिन्द्री में मडकमबीड़ी चौक से जतारा पुजा स्थल तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	12177300.00	244000.00	10000.00	6 मा
7	हाटगम्हरिया	कुशमुण्डा पंचायत के ग्राम—मुण्डासाई से उमेश सोय घर से हेस्साबेड़ा तक पीo सीo सीo पथ निर्माण।	5822400.00	117000.00	10000.00	4 मा
8	हाटगम्हरिया	डुमरिया पंचायत के ग्राम कुलाबुरू लोहारीसाई चौक से लाण्डुबासा तक पीo सीo सीo पथ निर्माण।	18275500.00	366000.00	10000.00	6 मा
9	झींकपानी	केलेन्डे पंचायत के ग्राम—सुरजाबासा पी०डब्लु० डी० पथ से विगतोपांग होते हुए नवोदय विद्यालय एन० एच० 75 तक पी० सी० सी०पथ का निर्माण।	12295500.00	246000.00	10000.00	6 मा
10	चक्रधरपुर	इतिहासा पंचायत के इतिहासा हाई स्कूल से पंचायत भवन तक पी०सी० पथ निर्माण।	8362292.00	168000.00	10000.00	4 मा
11	चक्रधरपुर	जमीद पंचायत के ग्राम–सिकीदिकी में हनुमान मंदिर से REO रोड तक पी0 सी0 पथ का निर्माण।	2473952.00	50000.00	2500.00	3 मा
12	चक्रधरपुर	कोलचकड़ा पंचायत के इन्द्र कॉलोनी से रूगसाई होते हुए मुडियादन रोड तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	6203512.00	125000.00	10000.00	4 मा
13	चक्रधरपुर	जमीद पंचायत के ग्राम जामिद के पंचायत भवन से लेकर शिव मंदिर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	3427270.00	69000.00	5000.00	3 मा
14	बन्दगाँव	जलासार पंचायत के ग्राम–हतनादा से छोटा केसेल जीदन हेम्ब्रोम का घर तक पी0 सी0 सी0पथ का निर्माण।	7838300.00	157000.00	10000.00	4 मा
15	बन्दगाँव	जलासार पंचायत के ग्राम हतनादा में मुख्य पथ से मुण्डा टोली सड़क पर गार्डवॉल निर्माण।	2275200.00	46000.00	2500.00	3 मा
16	तांतनगर	चिटिमीटी पंचायत के ग्राम—डोबरोबासा लोलिन केशरी चौक से संकोसाई तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण।	9724200.00	195000.00	10000.00	4 मा
17	तांतनगर	पुरनिया पंचायत के ग्राम—पुरनिया से केनाल होत हुए तिलाईपी मुख्य सड़क तक पी० सी० सी० पथ निर्माण।	9307500.00	187000.00	10000.00	4 मा
18	तांतनगर	पुरनिया पंचायत के ग्राम— संकोसाई पुरनिया से चिटिमिटी डोबरोबासा जाने वाली सड़क पर पीo सीo सीo पथ निर्माण।	7930900.00	159000.00	10000.00	4 मा
19	तांतनगर	चिटिमिटी पंचायत के ग्राम—उलीडीह पी०डब्ल्यु०डी० रोड से बिंगबुरू होते हुए बुढ़ाबासा चौक तक पी० सी० सी० पथ निर्माण।	17688600.00	354000.00	10000.00	6 मा
20	तांतनगर	कासेया पंचायत के ग्राम—कासेया से हरिवेडा सूरमी दूरमी जाने वाली सड़क पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण।	14271400.00	286000.00	10000.00	6 मा
21	तांतनगर	चिटिमिटी पंचायत के ग्राम-बामेहुटुब उलीडीह बिंगबुरू रुतासाई होते हुए गितिला देर जाने वाली सड़क तक पी० सी० सी० पथ निर्माण।	10907500.00	219000.00	10000.00	6 मा
22	मंझारी	रोलाडीह पंचायत के ग्राम-थर्ड पहाडमंगा चौक से टोला नारंगाबासा ऑगनबाडी केन्द्र तक पीo सीo सीo पथ निर्माण।	8455800.00	170000.00	10000.00	4 मा
23	कुमारडुंगी	खण्डखोरी पंचायत के ग्राम खण्डखोरी में मानकी चौक से चोन्डो साई तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण।	8497800.00	170000.00	10000.00	4 मा
24	खूँटपानी	बड़ागुन्टीया पंचायत के ग्राम बान्दारंगरूई में कामरतोपा स्थल में आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।	2283500.00	46000.00	5000.00	3 मा
25	खूँटपानी	लेहरदा पंचायत के ग्राम–कोटसोना टोला तोड़ासाई मुख्य सड़क से जोजो गोड़ा होते हुए अरगुन्डी टोला को जेगोड़ा तक सड़क का निर्माण।	7975800.00	160000.00	10000.00	4 मा
26	खूँटपानी	डलीराजाबासा पंचायत ग्राम-मुरहातु मुख्य सड़क से कोलोमपी पथ से रेगा अंगारिया खेत तक पी0 सी0 सी0 सड़क का निर्माण।	4615900.00	93000.00	5000.00	3 मा
27	खूँटपानी	केयाडचालॉम पंचायत के ग्राम-सालीगुटू में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन से नालोपसाई तक पीo सीo सीo पथ का निर्माण।	6509400.00	131000.00	10000.00	4 मा
28	खूँटपानी	लोहरदा पंचायत के ग्राम बैंका में बोंगा घर से पासुगुटू तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	4339600.00	87000.00	5000.00	3 मा
29	खूँटपानी	उलीराजाबासा पंचायत के ग्राम बानाबीज से दोपई जाने वाली रोड़ पर गाडवॉल निर्माण।	4694600.00	94000.00	5000.00	3 मा
30	खूँटपानी	लोहरदा पंचायत के ग्राम–बासाकुटी प्राथमिक विद्यालय चौक से सांडेगाबासा जाने वाला पथ पर पीo सीo सीo पथ का निर्माण।	3616400.00	73000.00	5000.00	3 मा
31	खूँटपानी	पुरनिया पंचायत के ग्राम चुडयू के बिरसा बोदरा घर से नदी तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	13506800.00	271000.00	10000.00	6 मा
32	आनन्दपुर	रूँधीकोचा पंचायत के ग्राम ओनोरकोचा में जुसाफ बरजो के घर से नदी किनारे तक पी०सी०सी०सड़क पथ निर्माण।	8902800.00	179000.00	10000.00	4 मा
33	आनन्दपुर	झारबेड़ा पंचायत के ग्राम सिदवा अगापित तोपनो का घर से आर०ई० ओ० पथ तक पी०सी०सी०	9321900.00	187000.00	10000.00	4 मा
34	आनन्दपुर	पथ का निर्माण। आनन्दपुर पंचायत के ग्राम—कुड़ना पी०डब्लु० डी० पथ गाड़ी से लोपो तोपनो के घर तक सड़क	9674700.00	194000.00	10000.00	4 मा
35	आनन्दपुर	निर्माण। हरता पंचायत के ग्राम कान्डी मुण्डा टोली रोमा स्कूल तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	13728800.00	275000.00	10000.00	6 मा
36	आनन्दपुर	हरता पंचायत में रंगामाटी—गुंडरी जाने वाले रास्ते पर पी०सी०सी० पथ निर्माण।	15598000.00	312000.00	10000.00	6 मा
37	आनन्दपुर	हरता पंचायत के ग्राम मेरमेंडा में ओसंगी एवं मेरमेंडा के सीमा वाला नाला में पुलिया निर्माण।	11817900.00	237000.00	10000.00	6 मा
38	आनन्दपुर	रोबकेरा पंचायत के ग्राम—कोएजांली में लोवासोकरा सीमा से गोयराबेड़ा सीमा तक पीo सीo सीo पथ निर्माण।	23869100.00	478000.00	10000.00	6 मा
39	आनन्दपुर	बिन्जू पंचायत के ग्राम चारबंदिया अभिराम लकड़ा के घर होते हुए राजेश धनवार के घर होते हुए बुढीबिल सीमान तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	10414600.00	209000.00	10000.00	6 मा
40	मनोहरपुर	कोलपोटका पंचायत के ग्राम—कुम्हार मुण्डा मैदान चौक से बीच बस्ती होते हुए बलेश्वर कच्छप घर तक पीo सीo सीo पथ निर्माण।	15688500.00	314000.00	10000.00	6 मा
41	जगन्नाथपुर	भनगांव पंचायत ग्राम भनगांव टोला डिपासाई में ब्रजमोहन होनहागा के घर से आंगनबाड़ी केन्द्र तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	7430200.00	149000.00	10000.00	4 मा
42	नोवामुण्डी	जेटेया पंचायत के ग्राम लेम्पाहेस्सा में कोवाराम चौक से ईचागुटु तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण।	14007000.00	281000.00	10000.00	6 मा

6.ई—निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम,

7.ई—निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० — 8709623131 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)

8.परिमाण विपन्न की राशि घट—बढ़ सकती है तद्नुसार अग्रधन की राशि देय होगी। 9.सरकार के संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 02(नि०नि०—17)—251/23 ग्रामीण कार्य विभाग 3130(अनु०), राँची, दिनांक 09.10.2023 द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में सभी कागजात के साथ, निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि Online Mode द्वारा स्वीकार्य होगी।

10.निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई—भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी।अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

।1.निविदा खोलने की तिथि से 5 दिनों के अन्दर निविदादाता द्वारा अपनी आपत्ति / दावा दर्ज कराये अन्यथा अवधि बीतने के पश्चात कोई भी आपत्ति / दावा मान्य नहीं होगा।

12. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग झारखण्ड एवं भवन निर्माण विभाग

झारखण्ड के अन्तर्गत पंजीकृत समुचित श्रेणी के संवेदक भाग ले सकेगें। ।3. जिन संवेदक का कार्य लंबित है उनका कार्य आवंटन पर विचार नही किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

PR 333429 West Singhbhum(24-25).D

विनायक वाणिज्य लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 28, स्टिल्ट फ्लोर, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 www.vinayakvanijya.com, **दूरमार :** 011 – 4367 5500, **ईमेल आईडी :** vvanijya1985@gmail.com **सीआईएन** : L52110DL1985PLC020109

39वीं वार्षिक आम बैठक की सचना

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि **विनायक वाणिज्य लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आग बैठक (एजीएम) गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को अप. 12:30 बजे फ्लैट नंबर 28. स्टिल्ट फ्लोर देविक टॉवर, 6. नेहरू फ्लेस, दिल्ली-110019 पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी ई—मेल पते पंजीकृत / अपडेट करने की प्रक्रिया :

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नर्ह किए हैं. उनसे अनरोध है कि वे डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की स्थिति में एनएसडीएल / सीडीएसएल ('बिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट') से संपर्क करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे . अपने विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र **आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड,** बी—25/1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, राणा मोटर्स के पास, नई दिल्ली - 110020 ('आरटीए') क भेजें या हमारे आरटीए को investor services@rcmcdelhi.com पर एक ई-मेल लिखकर अपने ईमेर आईडी पंजीकृत करने के लिए पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ भेजें। सदस्यों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यावसायिक मदों पर दूर से अपना वोट डालने का एव अवसर होगा। रिमोट ई-वोटिंग **सोमवार, 16 सितंबर, 2024 (प्रातःकाल 09:00 बजे) से आरंभ होक** बधवार, 18 सितंबर, 2024 (सायंकाल 05:00 बजे) तक चलेगी। ई-वोटिंग के उद्देश्य हेत कट-ऑफ तिथि 12 सितंबर, 2024 होगी। ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि, जिसमें भौतिक शेयरधारव या ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं कराई है या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं— इनके विवरण, एजीएम की सूचना में दिये जायेंगे। रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति उपर्युक्त तिथि और समय के बाद नहीं दी जाएगी। अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमावली के विनियम 42 के अनुसार एतद्द्वारा यह भी सूच

दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बहियाँ एजीएम के उद्देश्यार्थ शुक्रवार 13 सितंबर 2024 से लेकर के गुरुवार 19 सितंबर 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। कंपनी एजीएम के दौरान बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बैलट प्रक्रिया के माध्यम से मतदान की सुविध प्रदान करेगी। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नई होगी। कोई सदस्य जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लामार्थी रवामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ आम बैठक में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

39वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट अर्थात् https://www.vinavakvaniiva.com/invester.html पर और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कृते विनायक वाणिज्य लिमिटेर मुख्तार सिंह

डीआईएन : 06525800

निदेशव

दिनांक : 22-08-2024 स्थान : नई दिल्ली

आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वीं मंजिल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगाँव (पू.) मुम्बई 400063 भारत

ANAND RATHI सभी संबद्ध पक्षों के ध्यानार्थ, जैसा कि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्ती

परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनिय 54) और प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियं के उपयोग में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के तहत कर्जदारों (विवरण विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है. इसके बाद कर्जदार) को मांग सचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मांग सचना में उल्लिखित राष्टि और ब्याज की संविदात्मक दर पर भावी ब्याज के साथ लागत और शुल्क एवं मांग सूचना की तारीख से भुगतान और/या एआरजीएफएल द्वारा वसूली की तारीख तक देय अन्य राशि (यदि कोई हो) का भुगतान करने को कह हुए मांग सूचना (विवरण नीचे तालिका में विशेष रूप से उल्लेखित है, इसके बाद मांग सूचना) जारी की है (इसवे बाद देय राशि)।

कर्जदार और सह-कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों क प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों (जैसा कि मांग सूचना के तहत परिभाषित किया गया है का नीचे विशेष रूप से उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

इसके अलावा ऋणदाता (एआरजीएफएल) ने मकदमा संख्या 1409/2024 दायर किया है गाजियाबाद एसडीएम न्यायालय द्वारा भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए आदेश पारित किया गया था और आदेश के आधार पर हमने 01/08/2024 को बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। (अनुसूची–कमें उल्लिखित बंधव

इसके बाद एआरजीएफएल ने गाजियाबाद के एसडीएम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनपालन उपरोक्त उपक्रमों को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभृत संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सह-कर्जदार(रों) तथा आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई भी लेनदेन एआरजीएफएल द्वारा भगतान और/या वसली की तारीख तक देय लागत और शल्क और अन्य देय राशि (यदि कोई हो) सहित बकाया राशि (विशेष रूप से यहां नीचे उल्लिखित) के साथ-साथ आगे के भावी ब्याज की संविदात्मक दर पर ब्याज के साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार का नाम पता: श्री साध सिंह (कर्जदार), मेसर्स एक्यरेट इंजीनियरिंग वर्क्स (कर्जदार) एस-59 60, साइट 3 लोनी रोंड औद्योगिक क्षेत्र मोहन नगर गाजियाबाद-201007 **सह-कर्जदार का नाम पता**: 1. श्री इकबाल हैदर 2. श्री सैयद सलीम हैदर नकवी, 3. श्रीमती कनीज फातमा नंब 3/161, सेक्टर-2, आवासीय कॉलोनी, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

201005, 4100		
यथा प्रयोज्य भावी ब्याज सहित मांग सूचना के अनुसार	आरओआई	14.00%
बकाया राशि : रु. 1,09,09,888/- (एक करोड़ नौ	मूल बकाया	10,176,734
	लम्बित ईएमआई राशि	548,676
लाख नौ हजार आठ सौ अट्ठासी रुपये मात्र)	ब्रोकन पीरियड ब्याज	31,661
	अधिशेष ब्याज	19,846
मांग सूचना की तिथि : 16 नवम्बर, 2023	ईएमआई बाउंस प्रभार	5,900
ऋण अनुबन्ध सं. : APPL00005192	विधिक प्रभार	264,240
ऋण अनुबन्ध स. : AFFL00005192	डीएसआरए शेष	-137,169
भौतिक कब्जे की तिथि : 22 अगस्त, 2024	कुल बकाया	1,09,09,888
		611_

अनुसूची - I - प्रतिभृत संपत्ति का विवरण: संपत्ति का पता: आवासीय मुकान संख्या 3/161, कल क्षेत्रफल 139.40 वर्ग मीटर, सेक्टर −2, आवासीय कॉलोनी, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद, उ.प्र., पूर्वः – मकान संख्या 3/195, पश्चिमः - सड़क 30 फीट चौड़ी, उत्तरः - मकान संख्या 3/162, दक्षिणः - मकान संख्या 3/160 ह./-, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंग्र लिमिने दिनांक: 22 अगस्त, 2024 स्थान: दिल्ली

Dish TV India Ltd

DISH TV INDIA LIMITED

Regd. Office: Office No. 803, 8th Floor, DLH Park, S. V. Road, Goregaon (West), Mumbai-400062 Corp. Office: FC-19, Sector 16 A, Noida - 201301, U.P. F-mail: investor@dishd2h.com. CIN: L51909MH1988PLC287553 Website: www.dishd2h.com: Tel: 0120-5047000. Fax: 0120-4357078

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Dish TV India Limited will be held on Friday, September 13, 2024 at 11:30 AM (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set forth in the Notice calling AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the rules made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities Exchange Board of India ('Circulars'

In compliance with the applicable circulars, the Notice of the AGM with the Annual Report for the Financial Yea 2023-24 has been sent electronically on Thursday, August 22, 2024 to those members who have registered their email addresses with the Company/RTA/Depository Participant(s). Said documents are also available on the website of the Company at www.dishd2h.com, Website of BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com and on National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM shall be kept open for inspection by the members online during the AGM through VC.

The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since this AGM is being conducted through

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

- Pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015 the Company is pleased to provide the facility to the members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form or whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner as on Friday, September 6, 2024 ('cut-off date'), can cast their vote electronically through remote e-voting system as well as e-voting at the AGM of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- The remote e-voting period will commence at 9:00 AM (IST) on Tuesday, September 10, 2024 and will end at 5:00 PM (IST) on Thursday. September 12, 2024. Thereafter the e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by members, the members cannot modify
- Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report through electronic means and before the cut-off date i.e. Friday, September 6, 2024, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evotinolonsdl.co.in or InvestorOdishd2h.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then you may use your existing USER ID and Password, and cast your vote. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to vote at the meeting.
- The process for registration/updation of e-mail addresses is as under:
- ✓ For shares in physical mode: Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email addresses with the Company are requested to register/update their email addresses by submitting Form ISR-1 duly filled and signed along with requisite documents to Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent at
- For shares in electronic mode: Members are requested to register their email address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedures prescribed by the Depository Participants.
- The procedure of electronic voting is detailed in the Notice of the AGM and is also available on the websit of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case of queries, members may refer to Frequently Asked Questions (FAQS') and e-voting user manual for Members available in the download section of the e-voting website of NSDL www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM may send a request at evoting@nsdl.com or contact NSDL at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000
- Any query or grievance connected with the AGM, other than e-voting, may be addressed to the Company Secretary at Investor@dishd2h.com or at the corporate office address or members may contact Ms. Surabh Gangatirkar, Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: +91 022 49186270, Fax: +91 022 49186060, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

For Dish TV India Limited

Raniit Singh

आम जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि. हमारे क्लाइंट मैसर्स मथट फाईनान्स लि. द्वार 27th August 2024 को (बंधक आभाषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कर अपरिहार्र कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 20th September 2024 को सार्वजनिक नीलामी पुन निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदार को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

गाहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छ्ड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** य 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

ANAND RATHI

आनन्द राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड

एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 8वीं मंजिल, स्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगाँव (पू.) मुम्बई 400063 भारत संदर्भ सं. APPL00004733 तथा APPL00004945

जैसा कि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों व प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा 2 के तहत कर्जदारों (विवरण विशेष रूप से नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है, इसके बाद कर्जदार) को मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि और ब्याज की संविदात्मक दर पर भावी ब्याज के साथ लागत और शुल्क एवं मांग सूचना की तारीख से भुगतान और/या एआरजीएफएल द्वारा वसूली की तारीख तक देय अन्य राशि (यदि कोई हो) का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना (विवरण नीचे तालिका में विशेष रूप से उल्लेखित

कर्जदार और सह-कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः एतद्वारा नीचे उल्लिखि कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित (पूर्वर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ प्रतित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों (जैसा कि मांग सूचना के तहत परिभाषित किया गया है) का नीचे विशेष रूप से उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सह-कर्जदार(रों) तथा आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई भी लेनदेन एआरजीएफएल द्वारा भुगतान और/या वसुली की तारीख तक देय लागत और शुल्क और अन्य देय राशि (यदि कोई हो) सहित बकाया राशि (विशेष रूप से यहां नीचे उल्लिखित) के साथ-साथ आगे के भावी ब्याज की संविदात्मक दर पर ब्याज के साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन

कर्जदार का नाम पता: श्री रोहित, 1813/9 प्रथम तल गली नंबर 9, गोविंदपुरी एक्सटेंशन कालकाजी दिल्ल

मार्ग सूचमा के अनुसार देव सारा, लागू ब्याज साहतः							
रु. 19,28,761/- (रुपये उन्नी	म लाख अदाईस	₹. 2,27,582/-					
हजार सात सौ इकसट		(दो लाख सत्ताईस हजार पांच सौ	बयासी रुपए मात्र)				
हजार सात सा इकस्ट	, 414)	आरओआई	13.50%				
आरओआई	13.50%	मूल बकाया	1,94,371				
मल बकाया	17,97,926	लम्बित ईएमआई राशि	10,388				
लम्बित ईएमआई राशि	95,192	ब्रोकन पीरियड ब्याज	365				
ब्रोकन पीरियड ब्याज 3,372 विधिक प्रभार 6,500 अधिशेष ब्याज 8,691		विधिक प्रभार	6,500				
		अधिशेष ब्याज	1,238				
		ईएमआई बाउंस	13,620				
	-,	नोटिस प्रभार	1,100				
ईएमआई बाउंस	15,980	कुल बकाया	2,27,582				
नीटिस प्रभार	नोटिस प्रभार 1,100						
कुल बकाया	19,28,761	ऋण अनुबन्ध सं. : APPL00004733 तथा APPL00004945					
ग्रासन्त्राकी विधि । 14 जन २०२	4	करने की विधि . 21 आगर 2024					

है'', ''जहां कहीं भी है'' और ''रिकोर्स के बिना'' के आधार पर आयोजित की जाएगी :

दिनांक: 21 अगस्त, 2024

सार्वजनिक सूचना

जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 28th August 2024 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 10th September 2024 को सार्वजनिक नीलामी पुन नेधारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जुदार को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित ाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए, पहली मजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

रेमेड लैब्स लिमिटेड

सीआईएन: L24111UP1992PLC014240 पंजीकृत कार्यालय- सी-273, सेक्टर-63 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301 वेबसाइट- www.raymedlab.com, ई-मेल- raymedlabsltd@gmail.com, **दूरमाष सं.-** 0120-2426900, 9412700300

32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

नद्दवारा सूचना दी जाती है कि **रेमेड लैब्स लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को मध्या. 11:00 बजे आईएसटी** पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय सी-273, सेक्टर-63 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301 गयोजित होने वाली है।

ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने की प्रक्रिया :

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल आईडी पंजीकृ त/अपडेट नहीं किए हैं, वे सदस्य, उनसे अनुरोध है कि वे डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की स्थिति नें एनएसडीएल / सीडीएसएल ('डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट') से संपर्क करें। भौतिक प्रारूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्रों को **बीटल फाइनेंशियल कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,** 99 मदनगीर, बी / 4, लोकल शापिंग सेंटर, दादा रसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली—110062 ('आरटीए') को भेजें या हमारे आरटीए को beetalrta@gmail.com पर एक ई-मेल लिखकर, साथ में पैन कार्ड और पते के प्रमाण की

स्व–सत्यापित प्रतियाँ भेजकर अपना ईमेल आईडी पंजीकत करवा सकते हैं। सदस्यों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यावसायिक मदों पर दूर से ही अपना वोट डालने का एक अवसर होगा। रिमोर्ट ई—वोटिंग 15 सितंबर, 2024 (प्रातःकाल 09:00 बजे) से आरंभ होकर 17 सितंबर, 2024 (सायंकाल 05:00 बजे) तक चलेगी। ई-वोटिंग के उद्देश्यार्थ कट-ऑफ तिथि 13 सितंबर 2024 होगी। ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि, जिसमें भौतिक शेयरधारक या ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकत नहीं कराई है या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं के लिये जानकारी शामिल है, एजीएम की सूचना में उल्लिखित है। रिमोट ई-वोटिंग की उपर्युक्त तिथि और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताये विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार यह भी सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां शनिवार 14 सितंबर 2024 से लेकर के बुधवार 18 सितंबर 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्यार्थ बंद रहेंगी।

. कंपनी एजीएम के दौरान बैलट प्रक्रिया के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान की . व्यवस्था करेगी। कोई सदस्य रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई सदस्य जिसका नाम कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा। 32वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट

अर्थात् https://www.raymedlab.com/investor-desk/annual-reports/ पर और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। कृते रेमेड लैब्स लिमिटेड हस्ता./-

दिनांक : 23-08-2024 ः नोएडा



पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन : 0263641**8**

अजय गोयल

SANDHARGrowth, Motivation, Better Life

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: 1 74999DI 1987PI C029553 Regd. Office: B-6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave New Delhi - 110029 Ph: +91-124-4518900 Fax No.: +91-124-4518912 Website: www.sandhargroup.com; Email: investors@sandhar.in

32ND ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

- Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of Sandhai Technologies Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 24th September, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Othe Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated the 8th April, 2020, 17/2020 dated the 13th April, 2020, 20/2020 dated the 5th May, 2020, 02/2021 dated the 13th January 2021, 02/2022 dated the 05th May, 2022, and 10/2022 dated the 28th December 2022, 09/2023 dated the 25th September, 2023 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), SEBI Circular dated the 12" May, 2020 and subsequent Circulars issued in this regards, the latest being Circular dated 07th October, 2023 ("SEBI Circulars") (collectively referred to as the "relevan circulars"), to transact the business(es) as set out in the Notice calling the AGM.
- In Compliance with the above Circulars, the electronic copies of the AGM Notice along with the Annual Report for Financial Year 2023-2024 will be sent to all the members, whose email addresses are registered / available with the Company Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website: https://sandhargroup.com/investors/annualreports and also or the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com
- Members are requested to register and update their email addresses and bank account details for receipt of dividend etc., as per the process advised by the Depository Participants.
- Members can attend/ participate in AGM only through VC/OAVM facility. Members attending AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013. Instruction for joining the AGM through VC/OAVM facility, will be provided in AGM Notice.
- Members will have the opportunity to cast their vote electronically on the business(es) as set out in the AGM Notice through remote e-voting or e-voting to be conducted at the AGM. For the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories, login details for e-voting and attending AGM would be sent to their registered email addresses. Members whose credentials are not registered with the Company/ Depositories, the detailed procedure for voting and attending AGM will be provided in AGM Notice, which will also be available or Company's website: https://sandhargroup.com/ The Members are requested to visit the Website
- For Individual Members holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and CDSL should log in through the sites of NSDL and CDSL to cast the votes during the remote e-voting period. However, for VC / OAVM meeting all the Members should log in at https://instameet.linkintime.co.in to participate in the meeting and also to cast vote in case they have not voted during the remote e-voting period.
- The Board has recommended a final dividend of INR. 3.25/- per equity share of INR. 10/- each fully paid up. The Company has fixed Tuesday, 17th September 2024, as record date for determining entitlement of members to dividend.
- 8. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Tuesday 17th September, 2024.
- i. The remote e-voting shall commence on Saturday, 21st September, 2024 (09:00 A.M. IST)
- ii. The remote e-voting shall end on Monday, 23rd September, 2024 (05:00 P.M. IST) 9. The Notice of the 32nd AGM will be sent, shortly, to the members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses

By order of the Board of Directors For Sandhar Technologies Limited

Date: 22nd August, 2024 Place: Gurugram, Haryana

Yashpal Jain Chief Financial Officer and Company Secretary M. No. A13981

MIRAE ASSET

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs. radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAPs:

Date	Time	Address		
August 24, 2024	07:00 P.M.	The Lalit, CP, New Delhi - 110 001.		

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) 990MH2019PTC324625) Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E),

Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ⊠ customercare@miraeasset.com ⓐ www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Notice for Allottees of KVD Windpark (UPRERAPRJ3122), Plot No.GH09-B, Tech Zone IV, Greater Noida West, Uttar Pradesh

of units of Allottees who failed to clear their dues within 90 days from date of demand were to be cancelled. However on the request of homebuyers, in good faith, the Company launched a Default Revival Scheme and continued to receive and accept payments. However, despite sending various reminders, following allottees have still failed to clear their dues till 20 August 2024: S No. Unit No. Allottees Name S No. Unit No. Allottees Name

Oo.	O	rinottooo itamio	0	O	Tillottooo isaliio
1	T3/171	Aarem Construction	33	T7/143	Tushar Paryani
2	T1/144	Sangeeta Sinha and Alok Sinha	34	T1/34	Pushplata Tiwari and Dhanesh Kumar Tiwari
3	T7/94	Lokendra Kumar Tripathi	35	T2/152	Manjusha Kumari and Ved Prakash
4	T6/23	Shailendra Tiwari and Vandana Tiwari	36	T7/34	Swati Tyagi
5	T7/186	Sanjiv Dutta Dwari and Sharda Devi	37	T6/61	Mahesh Kohli
6	T7/28	Abhimanyu Rana and Jyoti Thakur	38	T7/191	Subrat Kumar Pradhan and Momi Roy
7	T6/182	Nishat and Md Irfan	39	T1/184	Samsher Singh Rawat and Sunita Rawat
8	T3/174	Satnam Singh and Mandeep Kaur	40	T7/103	Naveen Nayyar
9	T3/123	Zubaida Khatoon and Idreesh Khan	41	T7/45	Naveen Nayyar
10	T6/176	Deepak Sharma and Sheetal Sharma	42	T6/141	Chandra Prakash Vela
11	T3/82	Mohammad Moin Raza and Mohd Ahmad Khan	43	T7/148	Shivankar and Ritu Sinha
12	T3/133	Aditi Singhal	44	T6/192	Kapil Mehndiratta
13	T1/124	Ajay Raj Singh Chauhan and Parul Singh	45	T7/147	Jyoti Bali
14	T3/92	Mohammad Hamid Raza Khan and Mohd Asif Khan	46	T6/174	Kapil Mehndiratta
15	T3/204	Kamini Sehgal	47	T3/153	Jarnail Singh and Gurprit Kaur
16	T2/92	Puja Dubey and Satish Kumar Dubey	48	T6/93	Rapid Credit and Holding Pvt Ltd
17	T1/102	Dr. Lalita Agarwal and Rajesh Kumar Agarwal	49	T7/156	Rajeev Ranjan Kumar
18	T1/52	Dr. Lalita Agarwal	50	T6/123	Satish Kumar
19	T7/44	Mukesh Kumar Bhandula	51	T1/151	Manoj Singh and Poonam Singh
20	T3/203	Varun Akash and Bimlesh Saxena	52	T6/242	Shiv Prasad Chaubey and Sachin Chaubey
21	T7/73	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	53	T1/174	Binod Kumar Agarwal
22	T7/74	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	54	T6/181	Suryakant Pandey
23	T1/82	Rajesh Kumar Agarwal	55	T6/165	Anubhav Singhal and Rakesh Singhal
24	T7/104	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	56	T1/152	Poonam Singh
25	T7/37	Rizwana Akhtar	57	T1/172	Poonam Singh and Manoj Singh
26	T7/127	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	58	T3/63	Binod Kumar Agarwal
27	T6/57	Sarika and Ramesh Jerath	59	T7/176	Preeti Sharma
20	TO/E 1	Daisah Kuman Anamusi	co	TC/120	Dunch and Diesi

Failure to clear dues in a timely manner by allottees, has created a grave impediment for the Company to implement the resolution plan in a timely manner. Hence, in order to protect the interests of other allottees of the project, the Compan is forced to cancel the above allotted units without any further notice in case the above allottees do not settle their

32 T7/226 Rishikesh Prasad and Poonam Kumari

पंजीकृत कार्यालय: ग्रिपवेल हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर- सी 6 एवं 7, बसंत कुंज, नई दिल्ली -110070 कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए1 एवं ए 2,फेस-II, नोयडा-201305, (उ०प्र०) इण्डिया, दरभाष: +91 120 4581400.

यनिपार्टस इण्डिया लिमिटेड

CIN:L74899DL1994PLC061753 ईमेल : compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट : www.unipartsgroup.com

कम्पनी की तीसवीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") के सम्बन्ध में जानकारी युनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को एतदतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की **तीसवीं**

वार्षिक साधारण बैठक कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015 के सभी लागू प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्रों") एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया ("**सेबी परिपन्नों"**) द्वारा जारी इस मामले में सभी लागू परिपन्नों के अनुपालन में एजीएम बुलावे की सूचना मे निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु विडियों कान्फ्रैसिंग ("वीसी") अथवा अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2023 को सायं 04:30 बजे (आईएसटी) पर आयेजित की जायेगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा शामिल होकर भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 103 की धारा के अन्तर्गत कोरम की गणना के उदेश्य से

एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2023-24 की वाषिर्क रिपोर्ट मार्च 31, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय कथन को मिलाकर ("वाषिर्क रिपोर्ट") सभी सदस्यों, जिनके ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदार अथवा कम्पनी अथवा कम्पनी व रजिस्ट्रार एण्ड हस्तांतरण एजेन्ट, लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ("आरटीए") के पास पंजीकृत को केवल ईमेल द्वारा एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार भेज दी जायेंगी। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.unipartsgroup.com, स्टॉक एक्सचेन्जों यानि बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः पर एवं कम्पनी के आरटीए की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है।

एजीएम में शामिल एवं रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा भाग लेने के तरीके के अनुदेश एजीएम की सूचना में प्रदान किये गये हैं। ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लॉगइन साख सदस्यों को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है अथवा जिनके ईमेल पर कम्पनी/आरटीए/डिपॉटरीज भागीदार के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों के नोट्स का पालन कर लॉगइन साख जनरेट कर सकते हैं। उसी लॉगइन साख का उपयोग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है।

ईमेल पते पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीकाः

तिथि : अगस्त 22.2024

स्थान : नोयडा, (उ० प्र०)

(क) भौतिक प्रपन्न में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते कम्पनी/आरटीए को लिखित में फोलियो न०, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे एवं पीछे) पैन कार्ड की (स्वअभिप्रमााणित स्कैन कॉपी) एवं आधार की (स्वअभिप्रमााणित स्कैन कॉपी) को पंजीकृत/अपडेट करा लें। जो सदस्य भौतिक पपत्र में शेयर धारण करते हों उपरोक्त दस्तावेजों को अपडेट/पंजीकरण कराने के लिए ईमेल पते compliance.officer@unipartsgroup.com अथवा आरटीए के निम्न पते पर भेज सकते हैं:

मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, यूनिटः यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम

मंजिल, प्लॉट न० एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058. (ख) **डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर धारित सदस्य**, जिन्होंने अपने ईमेल पते डिपॉजिटरीज भागीदार के पास गंजीकृत∕अपडेट नहीं कराये हैं वे डिपॉजिटरीज भागीदार, जिनके पास उनके डीमैट खाते बनाये गये हैं, उनके के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट कराने का अनुरोध है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार, कम्पनी ने एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम एवं ई-वोटिंग पात्रत्रा निर्धारण करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024 निधारित की है। किसी व्यक्ति जिसने एजीएम की इलेट्रानिक सूचना को भेजने के बाद शेयर्स अधिग्रहित किये हों और कम्पनी का सदस्य बना हो और कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता हो, लॉगइन साख प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना मे दिये गये अनुदेशों का पालन कर shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर आग्रह भेज सकता है।

कृते यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड हस्ता०/-जतिन महाजन

कानूनी प्रधान, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Date: August 22, 2024

Place: Noida

Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A15442

है, इसके बाद मांग सूचना) जारी की है (इसके बाद देय राशि)।

होगा। प्रतिभूत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के पावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

110019 **सह-कर्जदार का नाम पता**: 1. श्रीमती विमला 2. श्रीमती प्रियंका 3. श्री बद्दी प्रसाद 4. मेसर्स श्रीश्याम इंटरप्राइजेज, 1813/9 प्रथम तल गली नंबर 9, गोविंदपुरी एक्सटेंशन कालकाजी दिल्ली–110019

संपत्ति का विवरणः प्रथम तल पर आवासीय इकाई, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति संख्या टीए-15/1, 80 वर्ग गज का क्षेत्रफल। खसरा संख्या 591, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110019। सीमा पूर्वः- सङ्क, पश्चिमः- अन्य संपत्ति, दक्षिणः- अन्य संपत्ति, उत्तरः- अन्य संपत्ति

ह./-. आनंद राठी ग्लोबल फाडनेंस लिमिटेड

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिडेट निगमित कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बीट बिल्डिंग 5वीं मेजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014, शाखा कार्यालय : 14वीं मंजिल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स नेताजी सुभाष पैलेस पीतमपुरा नई दिल्ली—110034 प्राधिकृत अधिकारी का विवर्ण : नाम : ललित त्यागी, ई—मेल आईडी : lalit.tyagl@bajajfinserv.in मोबाइल नं.: 9855733149 / 8669189048

वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण व विनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना 2002 (आधानयम) के तहरा अचल संपातियों के बिला के लिए इ—नीलीमी हतु सीवजानिक सूचनी एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणी / सह—ऋणी की अचल संपत्ति गिरवी थी जो मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल') के लिए यहां नीचे वर्णित है और उक्त संपत्ति (प्रतिभृतित परिसंपत्ति / संपत्ति) कस कब्जा सरफेरी अधिनियम 2002 और उसके नियमों के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया थ। प्रतिभृतित परिसंपत्ति को यहां नीचे वर्णित अनुसार बीएचएफएल को देययोग्य देय ऋणों, लागू ब्याज, शुल्कों और लागतों आदि की वसूली के लिए बोली द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी और बोली प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां के बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 8 व 9 और यहां नीचे वर्णित नियम व शतों के तहत "जहां है जैसी है", "जो है जैसी

ऋण खाता विवरण / ऋणी / यों) व गारंटर(/ ओं) के नाम / पता	1. ई—नीलामी की तिथि व समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति की जांच की तिथि व समय 4. संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य संपत्ति की ईएमडी बोली वृद्धि
LAN:- 401THTEI260882,	1) ई—नीलामी तिथिः 25 सितंबर, 2024 सुबह 11.00 बजे	आरक्षित मूल्यः रु.
401TLHEI113095	सं 12.00 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	16,00,000 / — (रुपए
1. राज कुमार (ऋणी)	2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा क्रने की अंतिम् तिथिः	सोलह लाख केवल)
2. गीता (सह—ऋणी)	24 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे तक (भामास)	ईएमडी : रु.
दोनों निवासी प्लॉट नं. एमएम 72 एफएल नं.	3) जांच की तिथि: 26 अगस्त, 2024 से 09 सितंबर, 2024	1,60,000 / — (रुपए एक
एफएफ 02, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी	सुंबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे (भामास)	लाख साठ हजार केवल)
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102	4) अचल संपत्ति का विवरण: संपत्ति एलआईजी फ्लैट नं. एफ.एफ. 02 के सभी भाग व पार्सल, पहली मंजिल पर छत	आरक्षित मूल्य का 10%
कुल बकाया :	अधिकारों के बिना बाएं हाथ सामने की तरफ कवर क्षेत्र	बोली वृद्धि — रु. 25,000/-
रुं. 24,48,147 / — (रुपए चौबीस लाख	600 वर्ग फुट प्लॉट नं. एमएम 72 पर निर्मित डीएलएफ	(रु पच्चीस हजार केवल)
अड़तालीस हजार एक सौ सैंतालीस केवल)	अंकर विहार गांव सददल्लाबाद परगना लोनी गाजियाबाद	व ऐसे गुणकों में
भावी ब्याज व 15 अगस्त, 2024 से	पूर्वः रोड 12 मीटर, पर्शिचम : प्लॉट नं. एमएम 72ए, उत्तर :	
व्यय शुल्कों के सहित	रोंड 18 मीटर, दक्षिण : प्लॉट नं. सी—1 / 46	

सार्वजनिक नीलामी के नियम व शर्ते निम्नानुसार है : — सार्वजनिक नीलामी "जहां है जैसी है, जो है जैसी है और रिकोर्स के बिना" के आधार पर आयोजित की जा रही है और बजार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात या अज्ञात चाहे कुछू भी हो सभी मौजूदा व भावी ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। प्रतिभूतित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी।

नीलामी बिकी ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।

ई—नीलामी प्रत्येक 5 मिनट के असीमित स्व विस्तार के साथ 25 सितंबर, 2024 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक ेल : https://bankaustions in के माध्यम से की जाएगी । पाटल - ntps://bankauctions.in के नांध्यन से की जीएंगा | - विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया कंपनी वेबसाइट URL https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices का संदर लें या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें |

सार्वजनिक सूचना इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अमर सि ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में श्री जितेंद्र सिंह मित्व वाली संपत्ति के पते पर ऋण के लिए आवेदन किया है आवासीय क्षेत्र माप- 300 वर्ग गज, खसरा 144 में से, ग्र जरतपुर वाजिदपुर, नोएडा. परगना और तहसील टाटरी जिल ौतमबुद्ध नगर, यूपी-201301 में स्थित है पंजीकृत उपह विलेख हिर्माक २५/०७/२०२४ (हस्तावेज संख्या ४६६)। प्रस् संख्या 1, खंड संख्या 14059, पृष्ठ संख्या 121-14(16.08.2024 को एमआएओ. नोएडा 🕕 गौतमबद्ध नगर। ध्यम से उक्त संपत्ति के संबंध में श्री अमर सिंह द्वारा श्री जितें सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया। इस पर कोई आपत्ति है बंध 15 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट लिखि आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्य

यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है। वरुण फोगाट (एडवोबे 72/03, गली नं. 2, कृष्णा नग सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 11002 (07982557892) (varunphogaat@gmail.con

जन सूचना यह जनसाधारण की सूचना के लिए हैं कि स्वराज्य लोकशाही पार्टी (पार्टी क नाम) नाम का राजनैतिक दल जिसक मख्यालय स्वराज्य भवन ३०१ ३०२ कुदेरा चैमबर्स संचेती अस्पताल के पास शिवाजी नगर, पुने—411005 में स्थित है (पार्टी कार्यालय का पूरा पता दे), और जो भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत है, अपना नाम बदलकर महाराष्ट्र

स्वराज्य पार्टी (पार्टी का नया नाम) करना प्रस्तावित करता है। प्रस्तावित नए नाम पर यदि किसी क कोई आपत्ति है तो वे अपनी आत्तियां कारणो सहित, सचिव (राजनैतिक दल) भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड. नई दिल्ली-110001 को इसे नोटिस के प्रकाशन होने से 30 दिन के भीतर भेज सकते है।

सार्वजनिक सूचना

पार्वजिनिक सूचना

यह सभी को ज्ञात है कि आवासीय फ्लैट संख्या 65डी,
(तीसरी मंजिल), ब्लॉक-बी-5, धवलगिरी अपार्टमेंट,
सेक्टर-34, मंग्रहा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
में स्थित है, जिसका कुल सुमर/कवर्ड एरिया 67, 10 वर्ग
मीटर है। श्रीमती तारा एस फिलाई पत्नी श्री श्रीकुमार
निवासी फ्लैट संख्या 65डी, ब्लॉक-बी-5, सेक्टर-34,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ने उपरोक्त फ्लैट
को निम्नानुसार जीपीए आधार पर बंचा है:-1, प्रमएस के
को निम्नानुसार जीपीए आधार पर बंचा है:-1, प्रमएस के
को निया गया था। पौला कोरेरा पुत्री स्वर्गीय श्री ए.सी.ई.
कोरेरा निवासी फ्लैट संख्या 65डी, ब्लॉक बी-5, सेक्टर
34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश जो हि सब
रिजय, गया था। पौला कोरेरा पुत्री स्वर्गीय श्री ए.सी.ई.
कोरेरा, निवासी क्येंक संख्या 65डी, ब्लॉक बी-5, सेक्टर
34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश जो कि सब
रिजस्टार, नोएडा के कार्यालय में पंजीकृत है और बिको
का करार किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित गर्जी किया
गया था। ब्यॉकि बिकी का करार निष्पादितगर्जी कृत
नहीं किया गया था, इसतिए इस नोटिस की सहायता स
पह स्वित किया जाता है, कि जीपीए के आधार पर
उपरोक्त बिक चुके फ्लैट का इस्तांतरण श्री जोसेफ
एंटनी नाजरीन करिरा पुत्र स्वर्गीय श्री ए.सी.ई, के पक्षम
इस्तान्तिर हो हो। है। जिए साठ एना क्रियोर फ्लैट
संख्या-103, ए-1 डेजी, श्रीवत्स गंवीबत विलेज, कुमार
गुरू कोलीज के पीछे, वित्रावेदमपद्री, वित्रावेदमपद्री
कोर्यबट्स, तिम्लानुङ 6-1040 के निवासी है, जो
एस.आर. नोएडा क्रोक्ट सम्मादित है। यदि
किसी को कोई आपित है, तो बह इस नोटिस को
अवासीय (आवास) विभाग में अपनी आपित प्रस्तुत
करेगा। सुश्री पौला कोरेरा

DEVELOPERS PVT. LTD

This is to inform that as per the terms of resoultion plan as approved by the Hon'ble NCLT ("Resolution Plan"), allotment

4	T6/23	Shailendra Tiwari and Vandana Tiwari	36	T7/34	Swati Tyagi
5	T7/186	Sanjiv Dutta Dwari and Sharda Devi	37	T6/61	Mahesh Kohli
6	T7/28	Abhimanyu Rana and Jyoti Thakur	38	T7/191	Subrat Kumar Pradhan and Momi Roy
7	T6/182	Nishat and Md Irfan	39	T1/184	Samsher Singh Rawat and Sunita Rawat
8	T3/174	Satnam Singh and Mandeep Kaur	40	T7/103	Naveen Nayyar
9	T3/123	Zubaida Khatoon and Idreesh Khan	41	T7/45	Naveen Nayyar
10	T6/176	Deepak Sharma and Sheetal Sharma	42	T6/141	Chandra Prakash Vela
11	T3/82	Mohammad Moin Raza and Mohd Ahmad Khan	43	T7/148	Shivankar and Ritu Sinha
12	T3/133	Aditi Singhal	44	T6/192	Kapil Mehndiratta
13	T1/124	Ajay Raj Singh Chauhan and Parul Singh	45	T7/147	Jyoti Bali
14	T3/92	Mohammad Hamid Raza Khan and Mohd Asif Khan	46	T6/174	Kapil Mehndiratta
15	T3/204	Kamini Sehgal	47	T3/153	Jarnail Singh and Gurprit Kaur
16	T2/92	Puja Dubey and Satish Kumar Dubey	48	T6/93	Rapid Credit and Holding Pvt Ltd
17	T1/102	Dr. Lalita Agarwal and Rajesh Kumar Agarwal	49	T7/156	Rajeev Ranjan Kumar
18	T1/52	Dr. Lalita Agarwal	50	T6/123	Satish Kumar
19	T7/44	Mukesh Kumar Bhandula	51	T1/151	Manoj Singh and Poonam Singh
20	T3/203	Varun Akash and Bimlesh Saxena	52	T6/242	Shiv Prasad Chaubey and Sachin Chaubey
21	T7/73	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	53	T1/174	Binod Kumar Agarwal
22	T7/74	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	54	T6/181	Suryakant Pandey
23	T1/82	Rajesh Kumar Agarwal	55	T6/165	Anubhav Singhal and Rakesh Singhal
24	T7/104	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	56	T1/152	Poonam Singh
25	T7/37	Rizwana Akhtar	57	T1/172	Poonam Singh and Manoj Singh
26	T7/127	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	58	T3/63	Binod Kumar Agarwal
27	T6/57	Sarika and Ramesh Jerath	59	T7/176	Preeti Sharma
28	T3/51	Rajesh Kumar Agarwal	60	T6/138	Prashant Pitti
29	T3/52	Lalita Agarwal	61	T1/154	Sneh Bhardwaj
30	T6/87	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	62	T6/153	R Jogindra Pradhan and R Bhanumati
31	T6/88	Beyond Dreams Properties Pvt Ltd	63	T3/122	Poonam Singh

default by 31-Aug-24 as per the terms of Default Revival Scheme.

K V Developers Private Limited